

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 462]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 नवम्बर 2015—कार्तिक 28, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2015

फा. क्र. 17(ई)-261-2015-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला देवास (म. प्र.) हेतु 171-देवास विधानसभा के उप चुनाव 2015 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को उपचुनाव का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला देवास (म. प्र.)
कार्यपालिक दण्डाधिकारी के प्रस्ताव हेतु अधिकारियों की सूची

क्र.	अधिकारी का नाम	पद	विभाग का नाम	निर्वाचन में सौंपा गया दायित्व
1	2	3	4	5
1	श्री रामेश्वर खेड़े	जिला शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय	सेक्टर अधिकारी
2	श्री सुनील जैन	अधीक्षण यंत्री	परि. क्रियान्वयन लोनिवि देवास	सेक्टर अधिकारी
3	श्री के.के. चौरे	महाप्रबंधक	म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.पी.आई.यू. देवास	सेक्टर अधिकारी
4	श्री एस.एल. सोलंकी	जिला पंजीयक	जिला पंजीयक	सेक्टर अधिकारी
5	श्रीमती सुनिता यादव	जिला कार्यक्रम अधिकारी	महिला बाल विकास	सेक्टर अधिकारी
6	श्री दिलीप कुमार जाट	सहायक संचालक	कृषि विभाग	सेक्टर अधिकारी
7	श्री डी.सी. द्विवेदी	प्राचार्य	आय.टी.आय. देवास	सेक्टर अधिकारी
8	श्री नरेशसिंह तोमर	प्र. सहा. संचालक उद्यान	कृषि विभाग	सेक्टर अधिकारी
9	श्री आय.ए. खान	सहायक प्रबंधक	म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.पी.आई.यू.	सेक्टर अधिकारी
10	श्री एस.के. जैन	मैनेजर एम.पी. एग्री	कृषि विभाग	सेक्टर अधिकारी
11	श्री निषिध गुप्ता	वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान केन्द्र बालगढ फार्म	सेक्टर अधिकारी
12	श्रीमती नीलम सूद	महिला सशक्तिकरण अधिकारी	महिला बाल विकास	सेक्टर अधिकारी
13	श्री बी.एम. गुप्ता	कार्यपालन यंत्री	देवास विकास प्राधिकरण	सेक्टर अधिकारी
14	श्री एस.के. मन्सारे	सहायक प्रबंधक	म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.पी.आई.यू.	सेक्टर अधिकारी
15	डॉ. जी.डी. वर्मा,	उपसंचालक,	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं देवास	सेक्टर अधिकारी
16	श्री एस.सी. झांझी	सहायक यंत्री	जल संसाधन संभाग देवास	सेक्टर अधिकारी
17	श्री ए.के. अवस्थी	अनुविभागीय अधिकारी	वनमण्डल (उत्पादन)	सेक्टर अधिकारी
18	श्री बी.एस. सोलंकी	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा देवास	सेक्टर अधिकारी
19	डॉ. तारा परमार	प्राचार्य	जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान देवास	सेक्टर अधिकारी
20	श्री एस.के. श्रृंगी	उप क्षेत्रीय अधिकारी	म.प्र. प्रदुषण बोर्ड देवास	सेक्टर अधिकारी
21	श्री के.सी. वास्केल	उपसंचालक,	कृषि विभाग	सेक्टर अधिकारी
22	डॉ. मोहम्मद अब्बास	विषय वस्तु विशेषज्ञ	उपसंचालक कृषि	सेक्टर अधिकारी
23	श्री आर. एम. मिश्रा	जिला संयोजक	आदिम जाति कल्याण	सेक्टर अधिकारी
24	श्री अशोक कुमार हनवते	अनुविभागीय अधिकारी, वन,	वनमण्डल (क्षेत्रीय)	सेक्टर अधिकारी
25	श्री पी.के. सक्सेना	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सेक्टर अधिकारी
26	श्री राजेश कामदार	उप संचालक	पंचायत एवं समाज सेवा	सेक्टर अधिकारी
27	श्री आर. पी. शर्मा	वरिष्ठ वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान केन्द्र बालगढ फार्म	सेक्टर अधिकारी
28	श्री ए.एस. चौहान	महाप्रबंधक	जिला उद्योग केन्द्र	सेक्टर अधिकारी
29	श्री उत्तमसिंह जादौन	परियोजना संचालक आत्मा	कृषि विभाग	सेक्टर अधिकारी
30	श्री नितिन कुमार हिंगे	सहायक प्रबंधक	म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.पी.आई.यू.	सेक्टर अधिकारी
31	शंकरलाल यादव	उपप्रबंधक	लघुवनोपज संघ वनमण्डल (क्षेत्रीय)	सेक्टर अधिकारी
32	श्री एस.एन. राजू	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी देवास	सेक्टर अधिकारी
33	श्री विवेक देवधर	उपयंत्री	उपसंचालक, नगरीय तथा ग्राम निवेश देवास	स्टेटिक सर्विलेंस टीम
34	श्री संजय तांबे	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी विभाग देवास	स्टेटिक सर्विलेंस टीम
35	श्री विरेन्द्रसिंह चौहान	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी विभाग देवास	स्टेटिक सर्विलेंस टीम
36	श्री प्रभाकर गुप्ता	उपयंत्री	जल संसाधन संभाग देवास	स्टेटिक सर्विलेंस टीम

1	अधिकारी का नाम	पद	विभाग का नाम	निर्वाचन में सौंपा गया दायित्व
1	2	3	4	5
37	श्री बी.यू. शेख	उपयंत्री	जल संसाधन संभाग देवास	स्टेटिक सर्विलेंस टीम
38	श्री सुदामा प्रसाद दोहरे	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग बी. एण्ड आर. देवास	स्टेटिक सर्विलेंस टीम
39	श्री बी.एस. मीना	सहायक संचालक	मत्स्य देवास	फलाईंग स्क्वाड
40	श्री राजेन्द्र माथुर	सहायक आपूर्ति अधिकारी	जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय देवास	फलाईंग स्क्वाड
41	श्री दिलीप केसरे	उपसंचालक	प्रदूषण देवास	फलाईंग स्क्वाड
42	श्री पी.एन. सोलंकी	श्रम निरीक्षक	श्रम विभाग देवास	फलाईंग स्क्वाड
43	श्री मुकुट सिंह	सहायक संचालक	प्रदूषण देवास	फलाईंग स्क्वाड
44	श्री नरसिंह सोलंकी	खाद्य एवं औषधि सुरक्षा अधिकारी	स्वास्थ्य विभाग देवास	फलाईंग स्क्वाड